

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2021

थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा नकली 37 नोट दो हजार रुपये के व 5 नोट 500 रुपये कुल 42 नोट कुल 76,500 रुपये बरामद कर अभियुक्त नासिर को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बरेली एवं क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में नकली नोटों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्र०नि० मीरगंज के नेतृत्व में टीम गठित की गयी । जिस क्रम में आज दिनांक 07.07.2021 को उ०नि० ललित कुमार मय हमराही का० 986 प्यारे व का० 534 रोहित थाना मीरगंज जिला बरेली अनुविश चौकी पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन चैकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति अनुविश चौकी से करीब 200 कदम की दूरी पर ग्राम परौरा की तरफ से आता दिखायी दिया । जो पुलिस वालो को देखकर सकपकाया और तेजी से चलने लगा । शक होने पर उ०नि० ललित कुमार मय हमराहीगण की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नासिर पुत्र लईक अहमद निवासी मौहल्ला सराय खाम कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली बताया । पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी से पाँच नोट 500 रुपये व दो हजार रुपये के कुल 37 नोट बरामद हुए । बरामद सभी नोट नकली पाये गये कुल 42 नोट जो 76,500 रुपये नकली बरामद हुये । इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 214/21 धारा 489B/489C आईपीसी पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- नासिर पुत्र लईक अहमद निवासी मौहल्ला सराय खाम कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली **उम्र करीब 48 वर्ष ।**

बरामदगी का विवरण:- नकली नोट 37 दो हजार रुपये व 5 नोट 500 रुपये कुल 42 नोट कुल 76,500 रुपये बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
2. का० 986 प्यारे खां थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
3. का० 534 रोहित कुमार थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

**प्रभारी निरीक्षक मीरगंज
जनपद बरेली ।**